



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25—मार्च 3, 2006 (फाल्गुन 6, 1927)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25—MARCH 3, 2006 (PHALGUNA 6, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION IV]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

सरकारी और बैंक लेखा विभाग
केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई, दिनांक 6 फरवरी 2006

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं. एफ.(8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18' के अनुसरण, दिसम्बर 2005 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग “क” में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग “ख” में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची “क”

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6

“कुछ नहीं”

सूची "ख"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
नई दिल्ली सर्कल 9% राहत बांड 1999					
डीएचएन-004371	रु. 70,000/-	चांद कुमार तनेजा और जीवन बाला तनेजा (कोई एक या उत्तरजीवी)	--	चांद कुमार तनेजा और जीवन बाला तनेजा (कोई एक या उत्तरजीवी)	पीडीओ/डीटी/एलएन-5/2005 दिनांक 08.10.2005
डीएचएन-005631	रु. 80,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

जे. एम. बावा
सहायक प्रबंधक


कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2006

सं. वी-33(13)16/2002-स्था.4--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1984 (1948 का 34) की रा. 25 के साथ पठित क.रा.बी. (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 10 के अनुसरण में, अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रीय बोर्ड का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

क्र.सं.	नाम व पदनाम	पदनाम	विनियम के अन्तर्गत
1.	श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	अध्यक्ष	10(1)(क)
2.	प्रधान सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	उपाध्यक्ष	10(1)(ख)
3.	सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य	10(1)(ग)
4.	निदेशक, क.रा.बी. योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तर प्रदेश	सदस्य	10(1)(घ)(i)
5.	उप चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी.नि.(उत्तरी क्षेत्र)	सदस्य	10(1)(घ)(ii)
6.	श्री पी.के. श्रीवास्तव, उप रेजीडेंट निदेशक, पी.एच.डी.सी.सी.आई., 1-ए, प्लॉस शहानाजाया रोड, लखनऊ	नियोजकों के प्रतिनिधि	10(1)(ड)
7.	श्री संजय सचदेव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सी.आई.आई.यू.पी., सी-170, निराला नगर, लखनऊ	नियोजकों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक

8.	श्री राम निवास गर्ग, गांव व डाकघर-दुजाना, तहसील दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर	--वही--	--वही--
9.	श्री नीरज गुप्ता, 4/15, अवागढ़ हाऊस, एटा (उत्तर प्रदेश)	--वही--	--वही--
10.	श्री उमाशंकर मिश्रा, महासचिव, एच.ए.एस., 25/26, यूनिफन भवन, आर्य नगर, लखनऊ	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	10(1)(ड)
11.	श्री आर.डी. पाल, सी-851, श्याम नगर, 13, कानपुर	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10 का परंतुक
12.	श्री राम किशोर त्रिपाठी, सचिव, एच.एम.एस., (उत्तर प्रदेश राज्य), 128/239-के ब्लॉक, किदवाई नगर, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	सदस्य- क.रा.बी.नि. पदेन-सदस्य	10(1)(च)
13.	श्री देवनाथ सिंह, बी एम एस, एफ-7, नगर पालिका क्वार्टर, पिशाच मोचन, वाराणसी-221001 (उत्तर प्रदेश)	--वही--	--वही--
14.	डॉ. (श्रीमती) रजनी सरीन, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, फरुखाबाद (उत्तर प्रदेश)	सदस्य एम बी सी पदेन-सदस्य	10(1)(छ)
15.	क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी. निगम, कानपुर	सदस्य सचिव	10(3)



आर. आई. सिंह
महानिदेशक

दिनांक 27 जनवरी 2006

संख्या: यू.16/53/पी.टी.एम.आर./आ.प्र./2002/चि.3 : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, राज्य चिकित्सा आयुक्त(आ.प्र.) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

<u>डॉक्टर का नाम</u>	<u>अवधि</u>	<u>केन्द्र का नाम</u>
डॉ. पी. सुन्दरम्	15.7.2003 से 14.7.2006 तक	नेलौर क्षेत्र

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

संख्या: यू.16/53/2003/चि.2(पंजाब) : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टरों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, राजकीय चिकित्सा आयुक्त(पंजाब) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

<u>डॉक्टर का नाम</u>	<u>अवधि</u>	<u>केन्द्र का नाम</u>
डॉ. अरुणकुमार अग्रवाल	16.9.2005 से 15.9.2006 तक	चण्डीगढ़
डॉ. एस.के. ढल	1.10.2005 से 30.9.2006 तक	लुधियाना

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

संख्या: यू.16/53/पी.टी.एम.आर./आ.प्र./2002/चि.3 : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, राज्य चिकित्सा आयुक्त(आ.प्र.) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

<u>डॉक्टर का नाम</u>	<u>अवधि</u>	<u>केन्द्र का नाम</u>
डॉ. गोविन्द प्रशाद	24.1.2006 से 23.1.2007तक	चिकडपल्ली, चारमिनार,एल.बी. नगर,रानीगंज,तरनाका
		डॉ. कमलेश कालरा चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 30 जनवरी 2006

संख्या: यू.16/53/2002/चि.2(राज0) : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, राज्य चिकित्सा आयुक्त(राज0) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

<u>डॉक्टर का नाम</u>	<u>अवधि</u>	<u>केन्द्र का नाम</u>
डॉ. ए.के.माथुर	2.1.2006 से 1.1.2007तक	पाली (राजस्थान)

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

कमलेश कालरा

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2006

संख्या: एन-15/13/11/5/2005-यो.एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने **01 फरवरी, 2006** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **पंजाब** कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-**1955** में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **पंजाब** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	हदबस्त संख्या	तहसील	जिला
1.	शेखों	211	जालन्धर	जालन्धर
2.	मुबारकपुर	210	जालन्धर	जालन्धर
3.	चक हुसैना	214	जालन्धर	जालन्धर

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

क्षेत्रीय कार्यालय (उड़ीसा)

भुवनेश्वर-22, दिनांक 31 जनवरी 2006

सं०: 44-बी-34/12/41/94-हित०

यह एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली 1950 के विनियम 10-क के अंतर्गत जिला बलांगीर में बलांगीर क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | <u>विनियम 10-क(1)(क) के अंतर्गत</u>
उप जिलाधिकारी, बलांगीर | अध्यक्ष |
| 2. | <u>विनियम 10-क(1)(ख) के अंतर्गत</u>
जिला भूमि अधिकारी, बलांगीर | सदस्य |
| 3. | <u>विनियम 10-क(1)(ग) के अंतर्गत</u>
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी
क० रा० बी० अस्पताल, बलांगीर | सदस्य |
| 4. | <u>विनियम 10-क(1)(घ) के अंतर्गत</u>
(नियोजक प्रतिनिधि) | |
| | (i) श्री रोशन कुमार अग्रवाल, स्वामी
बलांगीर मेटल इन्डस्ट्रीज़, शारबापड़ा, बलांगीर | सदस्य |
| | (ii) श्री पिताम्बर अग्रवाल, स्वामी
मेसर्स बी० आर० मेटल इन्डस्ट्रीज़, रेलवे स्टेशन,
बलांगीर | सदस्य |
| 5. | <u>विनियम 10-क(1)(ङ) के अंतर्गत</u>
(कर्मचारी प्रतिनिधि) | |
| | (i) श्री विजय कुमार गुप्ता
मेसर्स बजरंग राइस मिल
रेलवे स्टेशन, बलांगीर | सदस्य |
| | (ii) श्री विष्णुपद पति,
मेसर्स होटल राजमहल
बलांगीर | सदस्य |
| 6. | <u>विनियम 10-क(1)(च) के अंतर्गत</u>
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क० रा० बी० निगम, सोनपुर | सदस्य एवं पदेन सचिव |

~~सी. आर. नाइया~~

सी. आर. नाइया
क्षेत्रीय निदेशक

**इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदानगढ़ी**

नई दिल्ली-110068, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. प्रशा(जी)/ऑर्ड.5/2001/350--

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 1985 (1985 की सं० 50) की धारा 25(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने 31.12.1999 को आयोजित अपनी 65वीं बैठक और उसके बाद दिनांक 17.11.2001, 01.07.2002 और 25.10.2002 को क्रमशः आयोजित 70वीं, 72वीं और 73वीं बैठक में विश्वविद्यालय के अध्यापकों के कैरियर एडवांसमेंट संबंधी अध्यादेश (अध्यादेश 3) में संशोधन किया है। इसे कुलाध्यक्ष के रूप में भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त है जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 14 अप्रैल, 2004 के पत्र सं. 5-63/99-डेरक(यू)(ए) द्वारा सूचित किया गया है।

संशोधन के बाद निम्नलिखित खंड को इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

I) लेक्चरर का वरिष्ठ वेतनमान में स्थानन

(1) **8000-275-13500** रु. के वेतनमान में प्रत्येक लेक्चरर निम्नलिखित अर्हता पूरी करने पर **10000-325-15200** रु. के वेतनमान में जाने का पात्र होगा यदि उसने:

(क) 6 साल की सेवा पूरी कर ली हो (पीएच.डी. उपाधि धारकों के मामले में 4 वर्ष और एम.फिल. अथवा समकक्ष उपाधि धारकों के मामले में 5 वर्ष)

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त लगभग 3-4 सप्ताह के दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों/अभिविन्यास में भाग लिया हो (पीएच.डी. उपाधि धारकों को एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की छूट है); और

II) सेलेक्शन ग्रेड (चयन वेतनमान) में स्थानन

(1) प्रत्येक लेक्चरर निम्नलिखित अर्हता पूरी करने पर **12000-420-18300** रु. के वेतनमान में स्थानन का पात्र होगा:

(क) वरिष्ठ वेतनमान में 5 साल की सेवा पूरी करने अथवा लेक्चरर/वरिष्ठ वेतनमान में लेक्चरर के रूप में 11 साल की संयुक्त सेवा पूरी करने पर (पीएच.डी. उपाधि धारकों के मामले में 9 वर्ष और एम.फिल. उपाधि धारकों के मामले में 10 वर्ष)

(ख) वरिष्ठ वेतनमानप्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त लगभग 3-4 सप्ताह के दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों/ग्रीष्मकालीन संस्थान में भाग लिया हो; और

III) रीडर के पद पर पदोन्नति

(1) वरिष्ठ वेतनमान में प्रत्येक लेक्चरर निम्नलिखित अर्हता पूरी करने पर **12000-420-18300** रु. के वेतनमान में रीडर के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने पात्र होगा:

(क) वरिष्ठ वेतनमान में 5 साल की सेवा पूरी करने अथवा लेक्चरर/वरिष्ठ वेतनमान में लेक्चरर के रूप में 11 साल की संयुक्त सेवा पूरी करने पर।

(ख) पीएच.डी. उपाधि प्राप्त करने पर।

निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा और उसके बाद के खंडों को फिर से संख्या दी जाएगी:

(IV) प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति

(1) प्रत्येक रीडर निम्नलिखित को पूरा करने पर 16400-450-20900-500-22400 रु. के वेतनमान में प्रोफेसर पद का पात्र होगा:

(क) उसने रीडर के रूप में 8 साल की सेवा पूरी कर ली हो

(ख) सीधी भर्ती द्वारा पहले से प्रोफेसर पद पर नियुक्त व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होगा

(2) उसे निम्नलिखित जमा कराना होगा:

(क) कम से कम पाँच प्रकाशित शोध प्रकाशन/लेख/इकाइयाँ जिनमें से दो पुस्तकें होनी चाहिए।

(ख) पात्रता की तारीख से पाँच साल पहले की समयावधि सहित की स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट।

वांछनीय

(ग) कोई अन्य अकादमिक योगदान

(घ) सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों में सहभागिता

(च) अध्यापन/अकादमिक परिवेश/संस्थागत कार्परेट जीवन में योगदान

(छ) विस्तार एवं क्षेत्र गतिविधियाँ

(3) चयन समिति के समक्ष रीडर को स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करने से पहले विश्वविद्यालय रीडर द्वारा लिखित कम से कम पाँच शोध प्रकाशनों की समीक्षा के लिए क्षेत्र/विषय के तीन प्रसिद्ध विद्वानों को प्रेषित करेगा जिनमें से दो पुस्तकें होनी चाहिए। ये तीन विशेषज्ञ उन विशेषज्ञों से अलग होंगे जिन्हें बाद में साक्षात्कार लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। (*)

(*) प्रकाशनों के मूल्यांकन और साक्षात्कार के लिए यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित विधियों का अनुसरण किया जाएगा।

V) सामान्य

(7) लेक्चरर/लेक्चरर (वरिष्ठ वेतनमान)/सेलेक्शन ग्रेड/रीडर के मामले में जो पहले से ही स्थानन/ पदोन्नति के पात्र हो गए हैं विचारार्थ समेकित

(8) ऐसे अध्यापक जिसे स्क्रीनिंग/सेलेक्शन कमिटी द्वारा वरिष्ठ वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड/रीडर अथवा प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत करने के लिए संस्तुत नहीं किया गया है, वह पदोन्नति प्रक्रिया/साक्षात्कार के पूरा होने के एक साल के बाद स्वयं को समीक्षा के लिए प्रस्तुत कर सकता है।(*)

(*) पात्रता की तारीख का निर्धारण प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से किया जाएगा जिसमें अध्यापक को संस्तुत नहीं किया गया।

(9) में होते हुए भी रीडर/प्रोफेसर पद के लिए पदोन्नति

(10) यदि किसी फीडर कॉडर में अपेक्षित वर्षों की संख्या अध्यादेश में निर्धारित संख्या से कम है और इस प्रकार ऐसे उम्मीदवार जिसने कॉडर में पात्रता के लिए अपनी संपूर्ण सेवा के दौरान अपेक्षित वर्षों से अधिक सेवा कर ली है, उनकी सेवा के कुल वर्षों पर विचार करते हुए, उन्हें अगले उच्च कॉडर में रखने के लिए विचार किया जाएगा।

दलीप कुमार तेन्नी
कुलसचिव

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 3 फरवरी, 2006

नं. 13 सी.ए.(परीक्षा)/आई.एस.ए./मार्च/2006 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 (जो अधिसूचना संख्या-1सी.ए.(7)/59/2001 दिनांक 28 सितम्बर 2001 के द्वारा संशोधित किया गया) के नियम-7, अनुसूची 'एफ' के रेगुलेशन 204 के अनुसार दि कांसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि इनफोरमेशन सिस्टमस आडिट (आई0एस0ए0) कोर्स की निर्धारण परीक्षा (असेसमेन्ट टेस्ट) दिनांक 25.03.2006 को सत्र 8 बजे प्रातः से 12 बजे दोपहर, को निम्नलिखित केन्द्रों जिनको कि दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

श्रेणी-I (प्रथम) (परीक्षा केन्द्र जिनमें आई0एस0ए0 परीक्षा होगी)

परीक्षा केन्द्र :-

1. अहमदाबाद	15. कोलकाता
2. इलाहाबाद	16. लखनऊ
3. बैंगलोर	17. लुधियाना
4. भुवनेश्वर	18. मुम्बई
5. चंडीगढ़	19. नागपुर
6. चेन्नई	20. नासिक
7. दिल्ली/न्यू दिल्ली	21. पटना
8. ईरनाकुलम	22. पूना
9. गुवाहटी	23. रायपुर
10. हैदराबाद	24. सूरत
11. इन्दौर	25. वडोदरा
12. जयपुर	26. वाराणसी
13. जालन्धर	27. विशाखापटनम
14. कानपुर	

श्रेणी-II (द्वितीय) (परीक्षा केन्द्र जिनमें आई0एस0ए0 की परीक्षा होगी बशर्ते कि इस परीक्षा केन्द्र में कम से कम 25 परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।)

परीक्षा केन्द्र:-

1. अलीगढ़

2. रतलाम

परीक्षा जो कि श्रेणी-II (द्वितीय) के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र के लिये निवेदन करते हैं को श्रेणी-I (प्रथम) के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्रों में से एक या दो वैकल्पिक परीक्षा केन्द्रों को प्राथमिकता के अनुसार भी चुनना है यदि श्रेणी-II (द्वितीय) के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र में 25 से कम परीक्षार्थी आवेदन करते हैं तो परीक्षार्थियों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार जो कि उन्होने पत्र श्रेणी-I (प्रथम) के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र को भरा होगा, आवंटन किया जायेगा ।

यदि किसी परीक्षार्थी ने जिसको कि श्रेणी-II (द्वितीय) के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र के लिये आवेदन किया है और परीक्षा केन्द्र श्रेणी-I (प्रथम) के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र के लिये प्राथमिकता के आधार पर नहीं चुना है, को किसी भी नजदीकी परीक्षा केन्द्र श्रेणी-I (प्रथम) के अन्तर्गत आवंटन किया जायेगा ।

परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है । यह परीक्षा इंस्टीट्यूट के केवल पात्र सदस्य जो कि पहले से ही पंजीकृत है, के लिये हैं । इस परीक्षा (अससमेन्ट टेस्ट) के लिए परीक्षा शुल्क 1000/- (एक हजार रुपये) मात्र है ।

परीक्षा शुल्क की राशि का भुगतान केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जो की किसी भी अनुसूचित बैंक का हो, होना चाहिए । डिमाण्ड ड्राफ्ट 'सचिव' दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के पक्ष में होना चाहिए और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो। आवेदन पत्र उपयुक्त शुल्क के साथ इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह संयुक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में दिनांक 01.03.2006 तक पहुंच जायें । दिनांक 01.03.2006 के बाद आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

इस परीक्षा के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र पर ही किया जाना चाहिए जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव (परीक्षा) के नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 25/- रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है । आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचो के कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं और नकद भुगतान करने पर 11 फरवरी 2006 से प्राप्त किये जा सकते हैं । आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट की वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लुआईसीएआईओआरजी से प्रिंट करके परीक्षा शुल्क 1025/- रुपये के साथ भी भेजा जा सकता है ।

जी. सोमाशेखर
संयुक्त सचिव (परीक्षा)

DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION

Mumbai, the 6th February 2006

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April, 1946 [as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in Extra Ordinary Gazette No. 67, dated 21st February, 1990], the following list of securities lost etc. in respect of which *prima facie* ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended December 2005 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400008.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised.

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6

"NIL"

List "B"

No. of Security	Value in Rs./Grams.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6

New Delhi Circle

9% Relief Bonds, 1999

DHN-004371	Rs. 70,000/-	Chand Kumar Taneja and Jeewan Bala Taneja (Either or Survivor)	—	Chand Kumar Taneja and Jeewan Bala Taneja (Either or Survivor)	PDO/DT/LN-5/2005 dated 08.10.2005
DHN-005631	Rs. 80,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-

J. M. BAVA
Asstt. Manager

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 10th January 2006

No. V-33(13)16/2002-E.IV

In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the ESI (General) Regulation, 1950, the Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board for Uttar Pradesh State which shall consist of the following members, namely :-

S.No.	Name and Designation	Designation	Under Regulation
1.	Minister of Labour Govt. of Uttar Pradesh	Chairman	10(1)(a)
2.	Principal Secretary Labour Department Govt. of Uttar Pradesh	Vice Chairman	10(1)(b)
3.	Secretary Medical, Health & Family Welfare Department, Govt. of Uttar Pradesh	Member	10(1)(c)
4.	Director ESI Scheme, Labour Medical Services, Uttar Pradesh	Member	10(1)(d)(i)
5.	The Deputy Medical Commissioner E.S.I.C. (North Zone)	Member	10(1)(d)(ii)
6.	Shri P.K. Srivastava, Deputy Resident Director PHDCCI, 1-A, Plas Shahanajapa Road, Lucknow	Employers' Representative	10(1)(e)
7.	Shri Sanjay Sachdeva Chief Executive Officer, C.I.I. U.P. C-170, Niralanagar, Lucknow	Employers' Additional Representative	Proviso to Regulation 10(1)
8.	Shri Ram Niwas Garg, V.P.O. – Dujana, Teh. Dujana Distt. Guatam Budh Nagar	-do-	-do-

9.	Shri Neeraj Gupta 4/15 Awagarh House, Etah (UP)	-do-	Proviso to Regulation 10(1)
10.	Shri Umashanker Mishra Secretary General, H.M.S. 25/26 Union Bhawan, Arya Nagar, Lucknow	Employees' Representative	10(1)(e)
11.	Shri R.D. Pal, C-851, Shyamnagar, 13 Kanpur	Employees' Additional Representative	Proviso to Regulation 10
12.	Shri Ram Kishore Tripathy Secretary, H.M.S. (U.P. State) 128/239-K Block Kidwai Nagar, Kanpur (U.P.)	Member – E.S.I.C. Ex- Officio Member	10(1)(f)
13.	Shri Devnath Singh BMS, F-7, Nagar Palika Quarters, Pisach Mochan, Varanasi – 221 001 (U.P.)	-do-	-do-
14.	Dr. (Mrs.) Rajni Sareen Obst. & Gynaechologist Farrukabad (U.P.)	Member MBC Ex- Officio Member	10 (1) (g)
15.	Regional Director ESI Corporation Kanpur	Member Secretary	10(3)

R. I. SINGH
Director General

New Delhi, the 27th January 2006

No.U-16/53/2002/Med.II/(A.P.) : - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Hyderabad for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
1. Dr. P.Sunderam	15.7.2003 to 14.7.2006	Nellore Area

Dr. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

No.U-16/53/2003/Med.II/(Punjab): - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Chandigarh for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
Dr. Arun Kumar Aggarwal	16.9.2005 to 15.9.2006	Chandigarh
Dr. S.K. Dhall	1.10.2005 to 30.9.2006	Ludhiana

Dr. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

No.U-16/53/PTMR/2002/Med.II/(A.P.) : - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Hyderabad for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
1. Dr. Govind Prasad	24.1.06 to 23.1.07	Chikkad Pally, Charminar, L.B. Nagar, Rani Ganj, Tarnaka

Dr. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

New Delhi, the 30th January 2006

No.U-16/53/2002/Med.II/(Rajasthan): - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Rajasthan for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
Dr. A.K. Mathur	2.1.2006 to 1.1.2007	PALI

Dr. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

New Delhi, the 7th February 2006

No. N-15/13/11/5/2005-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employee's State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely :—

Sl. No.	Name of the Revenue Village	Had Bast No.	Tehsil and District
1.	Sheikhon	211	Jalandhar
2.	Mubarakpur	210	Jalandhar
3.	Chak Hussaina	214	Jalandhar

R. C. SHARMA
Jt. Director (P&D)

REGIONAL OFFICE

Bhubaneswar-22, the 31st January 2006

No. 44-V-34/12/41/94-Bft.—It is hereby notified that the Local Committee, Bolangir area in the District of Bolangir, set up under Regulation 10-A of the E.S.I. (General) Regulations-1950, has been reconstituted consisting of the following members w.e.f. the date of the issue of this notification.

- | | | |
|----|--|-------------------------------|
| 1. | Under Regulation 10-A(I) (a)
Sub-Collector, Bolangir. | Chairman |
| 2. | Under Regulation 10-A(I) (b)
District Labour Officer, Bolangir. | Member |
| 3. | Under Regulation 10-A(I) (c)
IMO In-Charge, ESI Dispensary, Bolangir. | Member |
| 4. | Under Regulation 10-A(I) (d)
Employers' representatives. | |
| | (i) Sri Roshan Kumar Agarwal, Proprietor,
Bolangir Metal Industries, Saradapada,
Bolangir. | Member |
| | (ii) Sri Pitambar Agarwal, Proprietor,
M/s. B. R. Metal Industries, Railway Station,
Bolangir. | Member |
| 5. | Under Regulation 10-A(I) (e)
Employees' Representatives. | |
| | (i) Bijay Kumar Gupta,
M/s. Bajrang Rice Mill,
Railway Station, Bolangir. | Member |
| | (ii) Sri Bishnupad Pati,
M/s. Hotel Rajmahal,
Bolangir. | Member |
| 6. | Under Regulation 10-A(I) (f)
Branch Manager, Branch Office,
ESI Corporation, Sonapur. | Member & Ex-Officio Secretary |

C. R. NAIYA
Regional Director

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY
MAIDAN GARHI

New Delhi-110068, the 2nd February 2006

No. IG/Admn(G)/Ord.5/2001/350.—

In exercise of the powers vested in it, under the provisions of Section 25(2) of the IGNOU Act, 1985 (No.50 of 1985), the Board of Management of the University, at its 65th meeting held on 31.12.1999 and further at its 70th, 72nd & 73rd meetings held on 17.11.2001, 01.7.2002 & 25.10.2002 respectively, had made amendments to Ordinance on Career Advancement of Teachers (Ordinance 3) of the University. This has the approval of the President of India in his capacity as Visitor as conveyed under the Ministry of Human Resource Development letter No.F.5-63/99-Desk(U)(A) dated 14th April, 2004.

After amendments, the following clauses read as:

I – Placement of Lecturers in the Senior Scale

- (1) Every Lecturer in the scale of pay of **Rs.8000-275-13500** will be eligible for placement in the Senior Scale of **Rs.10000-325-15200** if he/she has:
- (a) Completed **6** years of service (**4** years in the case of Ph.D. degree holders and **5** years in the case of M.Phil or equivalent degree holders)
 - (b) Participated in two refresher courses/orientation courses/summer institutes each of approximately **3-4** weeks' duration, organized recognized by the University; (**Those with Ph.D. degree would be exempted from one refresher course**); and

II – Placement in the Selection Grade.

- (1) Every Lecturer in the Senior Scale will be eligible for placement in the Selection Grade of **Rs.12000-420-18300** if he/she has:
- (a) Competed **5** years of service in the Senior Scale or **11** years of combined service as Lecturer/Lecturer in the Senior Scale (**9** years in the case of Ph.D. degree holders and **10** years in the case of M.Phil degree holders);
 - (c) Participated after placement in the Senior Scale in two refresher courses/summer institutes, each of approximately **3-4 weeks'** duration by the University; and

III – Promotion to the post of Reader.

(1) Every Lecturer in the Senior Scale will be eligible for promotion to the post of Reader in the scale of pay of **Rs.12000-420-18300** if he/she has:

- (a) Completed **5** years of service in the Senior Scale or **9** years of combined service as Lecturer/Lecturer in Senior Scale.
- (b) **Obtained a Ph.D. degree.**

The following New Clause will be added and subsequent clauses renumbered as under:

IV – Promotion to the post of Professor

(1) Every Reader will be eligible for promotion to the post of Professor in the Scale of pay of Rs.16400-450-20900-500-22400 if

- (a) he/she has completed 8 years of service as Reader:
- (b) A Professor already appointed under direct recruitment will not be eligible.

(2) He/She should submit the following:

- (a) A minimum of five research publications/articles published/units written out of which two could be books
- (b) A self appraisal report for the period including five years before the date of eligibility shall be submitted

Desirable

- (c) Any other academic contributions
- (d) Seminars/Conferences attended
- (e) Contribution to teaching/academic environment/institutional corporate life
- (f) Extension and field outreach activities.

(3) the University shall send the minimum of five research publications, out of which two could be books, in advance to three eminent experts in the subject/area for review before inviting the Reader to present himself/herself before the Selection Committee. These three experts shall be different from those called for interview to be conducted later on. (*)

(*) Modalities for assessing the publications & interview as laid down by the U.G.C. will be followed.

V – General

(7) In the case of Lecturer/Lecturer (**Sr.Scale**)/**Selection Grade/Reader** who have already become eligible for placement/promotion a consolidated for consideration.

(8) A teacher who has not been recommended by the Screening/Selection Committee for placement in the Senior Scale/Selection Grade/Promotion to the post of Reader or Professor can offer himself/herself for review after the expiry of one year from the date of promotion process/interview. (*)

(*) The date of eligibility shall be determined from the date of initiation of the process in which the teacher was not recommended.

(9) Notwithstanding anything promotion to the post of Reader/Professor.

(10) if the number of years required in a feeder cadre are less than those stipulated in this Ordinance, thus entailing hardship to him/her who has completed more than the total number of years in his/her entire service for eligibility in the cadres, he/she will be considered for placement in the next higher cadre after adjudging the total number of years.

DALIP KUMAR TETRI
Registrar

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 3rd February 2006

No. 13-CA (EXAM)/ISA/M/2006: - In pursuance of Rule 7 of Schedule 'F' to Regulation 204 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 (as amended vide Notification No. 1-CA (7)/59/2001 dated 28th September, 2001), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Information Systems Audit (ISA) Course Assessment Test will be held on **25th March, 2006 from 8.00 am to 12.00 noon** at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre as detailed below.

CATEGORY - I

(Centres at which ISA AT would be held)

1. Ahmedabad	15. Kolkata
2. Allahabad	16. Lucknow
3. Bangalore	17. Ludhiana
4. Bhubaneswar	18. Mumbai
5. Chandigarh	19. Nagpur
6. Chennai	20. Nashik
7. Delhi/New Delhi	21. Patna
8. Ernakulam	22. Pune
9. Guwahati	23. Raipur
10. Hyderabad	24. Surat
11. Indore	25. Vadodara
12. Jaipur	26. Varanasi
13. Jalandhar	27. Visakhapatnam
14. Kanpur	

CATEGORY -II

(Centre at which ISA AT would be held subject to a minimum of 25 candidates opting to appear from this centre)

01. Aligarh	02. Ratlam
-------------	------------

The candidates who opt for a centre mentioned under category - II would be required to give one or two alternate centres in order of preference from centres mentioned under Category I. In the event of a minimum of 25 candidates not opting for a centre mentioned under Category II, candidates who had opted for the said centre would be allotted to the centre of their choice in order of preference in Category I as mentioned in their application form. If any candidate who has opted for a centre in Category II has not

given his option for any alternate centre in Category I, he will be allotted to any of the nearest centre in Category I as per the discretion of the Institute.

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason. The above test is open only to eligible Members of the Institute who are already registered with the Institute for the said course. The fees payable for the above Assessment Test is Rs. 1000/-.

Payment of fees for the Assessment Test should be made only by Demand Draft. The Demand Draft may be of any Scheduled Bank and should be drawn in favour of the Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi only. Application together with the prescribed fee be sent so as to reach the Joint Secretary (Exams) at New Delhi on or before **1st March 2006**.

Applications for admission to the Assessment Test is required to be made in the prescribed form which may be obtained from the Joint Secretary (Exams), The Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002 on payment of Rs.25/- per application form. **The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained on cash payment on or from 11th February 2006. Alternatively, the format of application form can be downloaded from the website of the Institute viz. www.icai.org and the cost of the application form of Rs. 25/- can be added to the Assessment Test fee of Rs. 1000/- and the Demand Draft for Rs. 1025/- has to be sent. The last date for receipt of duly filled in application forms is 1st March 2006.** The application together with the prescribed fee should be sent by Speed Post/Registered Post to the Joint Secretary (Exams.), New Delhi. The applications received after 1st March 2006 will not be entertained under any circumstances.

G. SOMASEKHAR
Joint Secretary (Exams.)